

VIL/SEC/BSE/19

September 06, 2023

The Manager
Department of Corporate Services **BSE Limited**Floor-25, Phiroze JeeJeeBhoy Tower,
Dalal Street, Fort, Mumbai 400001 **Script Code: 517393**

Sub.: Submission of Newspaper Advertisements

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in Business Standard Newspaper (English Delhi Edition) and Veer Arjun (Hindi Delhi Edition) about information relating to 32nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be convened on Saturday, 30th September, 2023 at 10:30 A.M. at the Registered office of the company, i.e. D-88, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020.

You are requested to please take the above disclosures in your records.

Thanking you, Yours faithfully,

For Vintron Informatics Limited

PALLAVI Digitally signed by PALLAVI LALWANI Date: 2023.09.06 17:52:34 +05'30'

Pallavi Lalwani Director DIN: 07444062

Place: Delhi

EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED

Kailash Colony, Delhi – 110048 | Tel: 011-29247721-25

Website: www.emmsons.com, Email id.: bhalendra.singh@emmsons.co

providing folio numbers, name of the shareholder, scanned copy of the

share certificate (front and back), self attested copy of PAN card and self

attested copy of any one document from the Aadhar card, Driving License $election\,Identity\,Card\,and\,pass port\,for\,registering\,email\,addresse$

Please contact your depository participants and register your email addresses

Members may note that the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the Financial Year ended 2022-23 is available on the Company's website <u>www.emmsons.com</u> and

website of the Stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The notice of

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their rights to

vote on the resolutions proposed to be passed at the 30th AGM by remote e-voting and

e-voting during the AGM. The company has engaged the services of Link Intime India

ivate Limited (**"LIIPL"**) for providing its members the facility of **"remote e-voting**

and e-voting during the AGM". The detailed procedure of remote-e voting and

The remote e-voting period begins from 09:00 a.m (IST) on Saturday 23^{rd} September, 2023

and ends on 05:00 p.m. (IST) on Tuesday 26th September, 2023. The remote e voting module shall be disabling for voting at 05:00 p.m. (IST) on Tuesday 26th September, 2023.

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

The voting rights of the members shall be in proportion to the paid up value of their

shares in the equity capital of the Company as of the cut-off date i.e. Wednesday

20th September 2023. A member who is not a member as on cut off date should treat

this notice for the information purpose only. Any person who acquires shares and becomes a member after the dispatch of the notices of the AGM and holds shares as on

the cut off date may refer instructions mentioned in the notices for obtaining login id

and password for casting the vote. However if you are already registered with LIIPL for

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may atten

n case of any query/issues with respect to e-voting, members may contact at <u>bhalendra.singh@emmsons.com</u>. Further in case of any queries with respect to e-voting, please contact Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting

manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send ar

For: Emmsons International Limited

Chairman & Managing Director

IDFC FIRST Bank

IDFC FIRST Bank Limited

(Formerly known Capital first Ltd)

e-voting, you may use your existing user ID and Password for casting your vote.

the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.

mail to <u>enotices@linkintime.co.in</u> or contact on: -Tel: 022 – 4918 6000.

AGM is also available on the website of Linkintime at <u>www.linkintime.co.in</u>.

Holding addresses as per the process advised by your DP.

e-voting during AGM has been provided the notice of 30th AGM.

Read.off.: Flat No. 301, Plot No.12, Zamrudpur, Commi

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company

will be held on Wednesday 27th September, 2023 at 12:15 p.m (IST) through Video

SSION NOTICE (For Immovable Properties)

[Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, The undersigned being the authorized officer of the **Indian Bank** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Securit and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.06.2023 calling upon (1) M/s Padmawati Shikshan Sansthan (Trust/Borrower), (2) Mr. Lokesh Jain So Mr. Bhura Lala Jain (Guarantor), (3) Mrs. Sharmila Jain W/o Mr. Lokesh Jain (Guarantor / Mortgagor), (4) Miss Vidhushi Jain D/o Mr. Lokesh Jain (Guarantor) and (5) Mr. Bhura Lal Jain S/o Mr. Mohan Lal Jain (Guarantor) with our Udaipur Main Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 8,63,61,246/- (Rupees Eight Crore Sixty Three Lakhs Sixty One Thousand Two Hundred Forty Six Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule

below in exercise or powers conterred on nim under section 13(4) or the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules, on this 02nd day of September of the year 2023. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for Rs. 8,63,61,246-(Rupees Eight Crore Sixty Three Lakhs Sixty One Thousand Two Hundred Forty Six Only) as on 15.06.2023 and interest thereon."We draw attention to the provisions of section 13(8) of the SARFAESI Act and the rules framed there under which deals with your rights of redemption over the securities"

Description of the Immovable Properties

 All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No 509 to 51 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist -Udaipur, admeasuring 22385 Sq Ft Bounded as under:- North: Garden & Khasra No. 508, South: Road & Khasra No 531 & 542 East: 60 Feet Wide Road, West: Khasra No. 514, 531 & The Arena Scholar School

2. All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No. 519, 3371/518 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist. Udaipur, admeasuring 5533 Sq Ft., Bounded as under:- North: Land with Khasra No. 5594 & Part of 3371/1518, South: 30

Feet wide Road, East: Land with Khasra no. 518 Mi & 30 Feet Wide Road, West: Land with Khasra No. 520

Khasra No. 520

3. All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No. 522 Mi, 523 and 524 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist- Udaipur, admeasuring 17280.50 Sq Ft., Bounded as under:- North: Land with Khasra No. 526 & Ex House, South: Land with Khasra No. 520 & 521, East: Land with Khasra No. 525 & 518, West: Land with Khasra No. 520 & 521, East: Land with Khasra No. 525 & 518, West: Land Wit Khasra No. 530 & 30 Feet Wide Road

Date: 02.09.2023 Place: Udaipur Authorised Officer, Indian Bank

Mantown Branch: Sawai Madhopur-322001 (Raj. Ph.: 91-7462-220396, 223949, E-Mail: mantow@bankofbaroda.com POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 Whereas, The undersigned being the authorized officer of the BANK OF BARODA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **demand notice dated 03.05.2023** calling upon th orrower/s and guarantor/s namely:

Mr. Nirmal Kumar Swami S/o Shri Laxmi Chand R/o:- Mr. Prashant Jat S/o Late Ramsaha vii. Nimiar Kuniar Swalin Swalin Swalin Caxin Glahu Kv.- im. Frashian Gat 570 Cate Panisahar D2/218, Scout Ground Ke Pas, Housing Board Colony, Jat House No. 116, Akodiya Pati Sawai Madhopur-322001 (Borrower) Wazirpur (Gangapur City) Distric Sawai Madhopur, (Guarantor)

Late Shri Laxmi Chand Swami S/o Late Shri Misri Das Swami Through its legal heirs a) Mr. Nirmal Kumar Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami b) Mr. Naresh Kumar Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena (umari D/o Late Shri Laxrni Chand Swami d) Mrs. Shanti Board, Sawai Madhopur District Devi W/o Late Shri Laxmi Chand Swami All above residing Sawai Madhopur-322001 t R/o: House No. 2/218, Housing Board Colony, Scout Sawai Madhopur-322001 Devi W/O Late Shri Laxmi Chand Swami All above residing 1 s a w a i M a d h o p u r - 3 z at R/o: House No. 2/218, Housing Board Colony, Scout 1 (Guarantor cum mortgagor) Housing Board, Sawai Madhopur, District: Sawai (Guarantor cum mortgagor) Madhopur-322001 e) Ms. Beena Kumari D/o Late Shri Laxmi Chand Swami R/o: House No. 2/144, Housing Board Colony, Scout Field, Housing Board, Sawai Madhopur, District: Sawai Madhopur-322001 (Guarantors)

to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 18,62,632.52/- (Rupees Eighteen Lak Sixty Two Thousand Six Hundred Thirty Two & Paisa Fifty Two Only) as on 29.04.2023 + furthe interest from 30.04.2023+ Other charges together with further interest thereon at the contractua rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from-the date of receip f the said notice

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described hereir below in exercise of powers conferred on him/her under sub Section (4) of Section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 01th day of September of th

Teal 2023.
The Borrower/ Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Mantown Branch, Sawai Madhopur for an amount of Rs. 17,17,919.55 (Rupees Seventeen Lakh Seventeen Thousand Nine Hundred Nineteen & Paisa Fifty Five Only) as or 31.08.2023 and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expense till date of payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the immovable property known as Residential Property situated a M.I.G.-I number 02/218, Scout Field, housing Board Colony, Sawai Madhopur, District Sawa Madhopur, Rajasthan standing in the name of Smt. Shanti Devi W/o Shri Laxmi Chand Swam Admeasuring 90.00 Sq.mt. East: House No. MIG-I 2/217, West: House No. MIG-I 2/219, North House No. MIG-12/233, South: Road 6.00 Meter wide (Authorised Officer cum Chief Manager Date:- 01-09-2023, Place:- Sawai Madhopur Bank of Baroda

VINTRON INFORMATICS LIMITED CIN: L72100DL1991PLC045276 Regd. Off.: D-88, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Phone: 011 – 44126457; Fax: 011-44126457

Email: vintroninformatics.01@gmail.com; Website: www.vintroninformatic. PUBLIC NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Saturday, September 30, 2023 at the Registered office of the company, i.e. D-88, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 to transact the business, as set out in the Notice convening the AGM. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 Dt. April 8, 2020, No. 17/2020 Dt. April 13, 2020, No. 20/2020 Dt. May 5, 2020, No. 02/2021 Dt. January 13, 2021, No. 21/2021 Dt. December 14, 2021, No. 21/2022 Dt. May 5, 2022 and No. 10/2022 Dt. December 28, 2022, ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/012/ Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/012. P/2020/79 Dt. May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIFt/P/2021/11 Dt. January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIFt/P/2021/11 Dt. January 15, 2023 ("SEBI Circulars") respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India which has allowed the companies to send their Applied Peacet in Alexand Peacet in Ale

Annual Report in electronic mode. n compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent only through electronic mode to all the Members and all other persons so entitled, whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ("Registrar/RTA") of the Company /Depository Participants ("DPs") within the prescribed timelines.

Company /Depository Participants (DPs) within the prescribed unientees.

Members can attend and participate in the AGM through the remote e-voting facility Provide by the Company as per the provision of section 108 of Companies act, 2013 and rules made their under as well as through their physical presence in the AGM of the Company. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through remote E-Voting facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members who have not registered/undated their e-mail address and mobile number including address details are requested updated their e-final address details with the DPs in case the shares are held in electronic form and with the Company's RTA by writing

Drs in case the shares are held in election from an own the Company's Knab whiting to admin(@skylinerta.com, in case the shares are held in physical form for receiving the Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2022-23 along with instructions for e-voting and participating in the AGM through remote e-voting facility. Detailed procedure for remote e-voting/ voting at the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode/physical mode will be provided in the Notice of AGM.

For Vintron Informatics Limited Ashish

Date: 06.09.2023 Place: New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

UVAL **URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED**

Address : Shop No. 329, Avior, Nirmal Galaxy, L. B. S. Marg, Mulund (W), Mumbai-400 080 INDIA

Tel. No.: +91 22 2565 1355, Email id:- info@uravilamps.com, Web INTIMATION REGARDING 19TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 12/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 12, 2021, Circular No. 12/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 and 03/2022 dated May 05, 2022 Circular No. 10/2022 dated December and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), has allowed the Companies to conduct the AGM through VC or OAVM during the September 2023. In accordance with, the said circulars of MCA, SEBI and pplicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and SEBI (Listing Obligations and obsclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Uravi T And Wedge Lamps Limited will be held on Saturday September 30, 2023, at 10:30 A. M. (I.S.T.) through VC / OAVM without any physical presence o

nembers. The process of participation in the AGM will be provided the Notice of AGM. In compliance with the above circulars, the Company shall send electronic copies of Annual Repor along with the Notice of AGM to those shareholders whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant. The Notice of AGM along with Annual Report for the financia year 2022-23, will be available on the website of the Company at **www.uravilamps.com**, or the website of Stock Exchanges i. e. NSE Limited at **www.nseindia.com** and BSE Limited at

www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at vww.evotina.nsdl.com

lanner of Registering / Updating Email addresses:

For Physical Shareholders: Send scanned copy of the following documents by email to their respective Depository Participant or the Registrar and Transfer Agent (RTA) at investor@bigshareonline.com or the

Company at info@uravilamps.com a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address, mobi

number and email address to be registered; b. Self-attested scanned copy of the Pan Card; and

c. Self-attested scanned of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the

company.

Along with the above details, for registering the Bank Account details:

Name and Branch of the Bank:

Bank Account Type; Bank Account Number

MICR Code:

Scan copy of the cancelled cheque bearing all the above details for authentication

For Electronic Shareholders:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresse and mobile numbers with their relevant depositories through their depository part

Manner of Casting through E-voting : The remote e-voting as well as e-voting in the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the company. The details of the e-voting will be specified in the Notice of AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID can access the e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice

FOR URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED

Nirai Damii Gada Managing Director & CEO Place : Mumbai DIN: 00515932

कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.) 🌉 निविदा संशोधन सूचना

क्र ./81/न .पा .नि ./यो .प्र . शाखा/2023-24 एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य ''नगर पालिक निगम . बिलासपुर अंतर्गत सामान्य मिटिंग हॉल निर्माण कार्य हेतु इस कार्यालय से जारी निविदा क्र. 81 STN 145213 अंतर्गत कार्य को नाम Construction of Meeting Hall Behind Town Hall' अनुमानित लागत राशि रु. ५३२.२४ लाख पढ़ा व समझा जावे। निविदा की सामान्य शर्ते , धरोहर राशि. विस्तत निविदा विज्ञप्ति. निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

Green City, Clean City, Dream City.

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

POSSESSION NOTICE

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount

upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] pelow and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amour mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem th secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

हम निशाद परवेज पुत्र श्री आले हसन निवासी एम0एम0आई0जी0-द्वितीय, एम0एम0-112, आजाद

नगर शहर व जिला- मुरादाबाद एक सम्पत्ति एम0एम0आई0जी0-II, एम0एम0-112, आजाद नगर

योजना, मरादाबाद रकबर्ड 60.15 वर्ग मीटर के स्वामी बजरिये बयनामा इकरारी श्रीमति फात्मा पत्नी श्री

जावेद आलम जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय मुरादाबाद में बही सं0-1, जिल्द सं0- 9866 के

पृष्ठ सं0- 55 से 80 तक क्रमांक 9431 पर दिनांक 15.06.2013 को हुआ है। हम उक्त भवन के सापेक्ष

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, मुरादाबाद से ऋण ले रहे हैं। उक्त सम्पत्ति का मूल आवंटन पत्र जो

कि एम0डी0ए0 मुरादाबाद द्वारा उमेर अहमद पुत्र अब्दुल इलाही के पक्ष में निर्गत किया गया था, कहीं

खो ⁄गिर गया है, जिसकी सूचना ट्रांसपोर्ट नगर चौकी, थाना मझोला मुरादाबाद में दर्ज है। यदि किसी भी

व्यक्ति संस्था के कब्जे में हो या किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित्ति हो तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन

रोड शाखा मुरादाबाद, मोबाइल नं0- 8477009409 पर अपनी आपित 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत क

सकता है। तदोपरान्त उपरोक्त आवंटन पत्र की वैधता शून्य व निष्प्रभावी समझी जायेगी।

Date of Demand Name And Address of Borrower **Details of Property** Outstanding & Loan Account Number Amount Possessed [F] oan No. X0HEJHE00001595713 & X0HEJHE00002162315 SURAJ BORANA, 2. GARIMA PARIHAR BOTH ARE Property Situated Sojativo Ganchiyo Ka Bas. Kabutron Ka Chowk in side city 38.29.169.53/-RESIDENT OF GANCHIYO KA BASS KABUTRO KA CHOWK JODHPUR-342003 **3. Saroj Borana, 4. Sampat raj** Jodhpur Admeasuring area- 246 Sq as on 09-06-2021 Int. and Yards Four corners of the Property North-BOTH ARE RESIDENT OF SOJATIYA GANCHIYON KA BASS KABUTRON KA CHOWK BAIJI KA TALA JODHPUR- 342001, Property of Ganesh Ji, **South-** Property of Kishan Ji, **East-** Gali, **West-** Property of

5. M/s J M R C MEDICOS SHOP NO 8, 9 SECTOR-E SHASTR till realization Durgo ii as per sale deed Date: 04.09.2023 Place: Jodhpur AUTHORISED OFFICER, M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

punjab national bank

Chola

Circle Sastra Centre, Bharatpur

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of E-Nucleon Sale who the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property. mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

ear	earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS							
Lot no.	Name of the Branch	Description of properties along with name of	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002	Nature of possession & date	(A) Reserve Price (B) EMD amount/ last date of EMD	Date/time of e-auction	Details of any other encum- brance	
	Details of the borrowers/ guarantors	mortgagors (Owner of the properties)	(B) Outstanding amount		deposit (C) Bid Increase value			
1.	PNB-Todabhim Distt. Karauli (Raj) Borrower: M/s Balaji Tredars, Prop. Janak Raj Sharma S/o Har Sahay Sharma, Village - Gopalpura Panchayat Samiti, Todabhim, Karauli (Raj.)	Residential Property situated at Khasra No. 319, Patta No.04) (21.09.2008), Village-Gopalpura, Panchyat Samiti-Todabhim, Distt. Karauli (Rai), in the name of Sh. Har Sahay Sharma S/o Mulya Ram Sharma, Measuring Area 134.44 SQ Yard, Bounded: Morth: Call Then House of Shri Phool, South: Sh. Babu Lal Sharma. East: Gali, West: Open Land Then Road	(A) 09.12.2021 (B) Rs 13,04,000 (Rs. Thirteen Lakh Four Thousand only)	Symbolic Possession Taken on 03.06.2022	A) Rs.12,02000/- B) Rs. 1,20,200/- 25.09.2023 C) Rs. 5000/-	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known	
2.	Borrower: (Owner- Shri Jagdish Singh S/o Ram Khiladi M/s Aydhesh Vidhya	Commercial Land & Building struated at Khasra No. 1668/1869, Village - Luhasa, Tehsil - Nadbai, Distt. Bharatpur (Raj.), In the name of Sh. Jagdish S/o Sh. Ram Khiladi, Measuring Area 1505.44 sqm, Rounded: North: Land of Ramkhiladi, South: Kumher Road, East: Land of Chandrbhan	(A) 17.01.2023 (B) 816903.55 (Rupees Eight lakh Sixteen thousand, Nine Hundred Three and Fifty Five paise only)) as on 31.12.2022 with further interest & other charges	Symbolic Possession Taken on 15.04.2023	A) Rs.79,20,000/- B) Rs.7,92,000/- 25.09.2023 C) Rs. 1,00,000/-	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known	
3.	Karauli (Raj) Borrower: Shri Prem Singh	Residential Property situated at Patta No. 01, Village-Mandawara, Tehsil-Sapotra, Disttt. Karauli (Raj.), Measuring Area 3625.91 Sqt, Bounded: North: Prop. of Bhakti/ Rasta, South: Prop. of Ratinam/ Rasta, East-Rasta/ Patore Bheeklal, West-Rasta	(A) 22.11.2022 (B) Rs. 239934/- (Rs. Two Lakh Thirty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Four) as on 30.10.2021 and	Symbolic Possession Taken on 30.01.2023	A) Rs. 9,68,000/- B) Rs. 96,800/- 25.09.2023	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known	

other charges TERMS AND CONDITIONS- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (ring further conditions: 1. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. **3.** The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website

further interest and

https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app.http://www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in Authorized Officer Date: 06.09.2023 Place: Bharatpur STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 **Punjab National Bank**

Chemcon Speciality Chemicals Limited
CIN: L24231GJ1988PLC011652 Regd. Office: Block No. 355, Manjusar Kunpad Road, Village: Manjusar, Taluka: Savli, Vadodara – 391775 Tel: 0265 – 2981195 | Website: www.cscpl.com | Email: investor.relations@cscpl.com

Rs. 5.000/-

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34th (Thirty-fourth) Annual General Meeting (AGM) of the members of Chemcor Speciality Chemicals Limited (the Company) will be held on Thursday, September 28, 2023, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with MCA Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022(MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020 and January 5, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM

In accordance with the aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, has been sent through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed or September 5, 2023. The notice of AGM along with the Annual Report is also available on the Company's website (www.cscpl.com), Stock Exchanges website - BSE Limited (www.bseindia.com) & National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Notice of AGM shall also be available on the website of agency for providing the

Remote e-voting facility i.e. NSDL (www.evoting.nsdl.com). The Company is providing to its members, the facility to cast their vote electronically on all resolutions which are set out in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide the e-voting facility to the members. The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023, at 09:00 A.M. and ends on Wednesday. September 27, 2023, at 05:00 P.M.The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and the

remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and/or for participation at AGM and vote through e-voting system available during the AGM.The Members who will be present during the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have casted their vote through remote e-voting may also attend the

AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories and the person who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date may download the Notice of AGM and follow the

procedure for remote e-voting, attending the AGM and voting at the AGM as mentioned in the notice of AGM. Those Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s can get their email address registered by following the steps as given below:

a. For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned share certificate (front and back), self- attested copy of the PAN and self-attested scanned copy of address proof, by email

to the Company's email address at: investor.relations@cscpl.com. b. For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login

through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Place: Vadodara

Date: September 5, 2023

Login type	Helpdesk details		
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk		
securities in Demat mode with CDSL	by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at		
	toll free no. 1800 22 55 33		
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk		
securities in Demat mode with NSDL	by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000		
	and 022 - 2499 7000		
	F 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		

For Chemcon Speciality Chemicals Limited Shahilkumar Kapatel

Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Circular dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India

change it subsequently.

Date: 05.09.2023

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL AT KOLAR

APPLICANTS: Smt. Amreen & others -V/s RESPONDENTS: Sri Hazi Hasam & another NOTICE TO RESPONDENT No. 1

WHEREAS, the applicants have instituted where As, the applicants have historically the above claim petition against you and others claiming compensation for the death of late Isusabi @ Syed Yusuf in a road traffic accident. occurred on 18-3-2020 at about 12-45 noon, at Imperial project, in between 12-43 hoof, at imperial project, in between Ettakodi- Chikkathirupathi Villages, Malur Taluk, Kolar District with 1st respondent Lorry bearing registration No. HR-73-612. Thereby you are hereby summon to appear

on 29-08-2023.

Sri.T.V RAMESH &

E.C.A. No. 7/2021

<mark>Gri. Hazi Hasam,</mark> R/o. H.No. 181, Vtawa /illage, Hathin aluk, Palwal Dist., Haryana

of-11-2023 at 11 am to answer the same ailing which the above petition will be disposed off exparte

Given under my hand and seal of the Cour

121103

By order of the Court, Court of small Causes

Kolar

IDFC FIRST Bank Limited (Formerly known Capital First Ltd)

CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031, TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022.

AUTHORIZED OFFICER - Kartik Ahuja CONTACT NUMBER -7455846882 Email id-kartik.ahuja@idfcbank.com **APPENDIX- IV-A** SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforceme of Security Interest Act, 2002 read with provisos to Rule 8 (6)& 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Co-borrower(s) that the below describe immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of IDFC FIRST Bank Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 22.09.2023, for Recovery of INR 24,44,513.42 as on 01-10-2018 in account No's 13224873 due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capit

First Ltd) from. SUBHASH CHAND, RAM KUMAR, as Borrower(s) and Co-Borrowers (s). AUCTION STATUS					
Reserve Price	INR 1,836,000/-				
Earnest Money Deposit Amount.	INR 1,83,600/-				
Date of Submission of BID/Deposit Earnest Money.	21.09.2023 Up to 5.00 PM				
Date of Inspection of Property	15.09.2023 11.00 AM to 4.00 PM				
Date of Auction	22.09.2023 11.00 AM to 1.00 PM				
Property details	FLAT NO-F-1, ON FIRST FLOOR, PLOT NO-C-1/47, DLF DILSHAD EXTN- II, VILLAGE, BRAHAMPURI BHOPURA, PARGANA LONI,				

UTTAR PRADESH-201 005 For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IDFC FIRST Bank website i.e

https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC/. Disclaimer: Please note that the said notice is issued for sale of immovable property only and IDFC FIRST Bank Limited has no right to sell the movable assets, if any, present at the immovable property **Authorised Officer**

Place: GHAZIABAD

Date: 05.09.2023

Semac Consultants Limited

business as set out in the Notice of the AGM dated 29th August 2023.

(Formerly Known as Revathi Equipment Limited)

SEMAC Registered Office: Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 Phone: +91-4226655111

CIN:L29120TZ1977PLC000780

NOTICE Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday the 27th September, 2023 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 to transact the Ordinary and Special

The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been sent to all members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial owners as on close of the business hours 25th August, 2023 maintained by the Depository Participants (DPs) /Company, Registrar and Share Transfer Agent. The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the

financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been despatched

by Speed Post or Registered Post or Courier to the registered addresses of members whose emailid is not available and through Electronic Mode to the members who have registered their email-id with the Company/ Depository Participant. The despatch of these documents has been completed on 04th September 2023. The notice of the ensuing AGM along with the Annual Report are also available on the Company's website at https://semacconsultants.com/ and at the website of the Stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and at National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

www.nseindia.com. All the documents referred in the notice are available at the registered office for inspection during normal business hours 10.00 am to 4.00 pm on all working days till the date of the A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 20th September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM. The Company has also offered e-voting facility to the members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company is providing electronic voting (remote e-voting) facility provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL) to its members through their "InstaVote" website. Members are

-		ested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice.				
ı	1.	Date of completion of dispatch of Notice/ Annual Report	04th September 2023			
			24th September 2023 at 9.00 A.M.			
ı	3.	Date and time of end of remote e-voting Remote e-voting will not be allowed be and this date and time	26th September 2023 at 5.00 P.M			
ı	4.	Cut-off date of determining the members	20th September, 2023			

In case any Persons become members of the Company after the despatch of AGM notice and hold shares as on cut-off date of 20th September 2023, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. Any Member, who has already exercised his votes through remote e-voting, may attend the Meeting but is prohibited to vote at the Meeting and his/her vote, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Practice, Coimbatore as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner. The result of voting will be announced by the company in its website https://semacconsultants.com/ and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. This public notice is also available in the Company's website viz. https://semacconsultants.com/ and in the website of LIPL viz. instavote.linkintime.co.in and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed.

(Formerly known as Revathi Equipment Limited)

Date: 05th September 2023

Company Secretary & Compliance Officer

inclusive) for AGM.

by sending a request at engline.co.in or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000. The Company has appointed Sri. M D Selvaraj, FCS of MDS & Associates, Company Secretaries in

remain closed from Thursday, 21st September 2023 to Wednesday, 27th September 2023 (both days For Semac Consultants Limited

Cut-off date of determining the members eligible for e-voting for accessing the e-voting platform. same may be disabled by LIIPL for voting thereafter.

Shareholders facing any technical issue in login or e-voting may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will

The remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 26th September 2023 and the

Company Secretary & Compliance Officer

अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, बिलासपर (छ.ग (SEBI), electronic copies of the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on 5th September, 2023 to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/ Depositor Participants) you may please follow below instructions for registering/updating you email addresses: Physical Please send a request to the Company at <u>bhalendra.singh@emmsons.com</u>

वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2023



केजरीवाल सरकार के प्रयासों से इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दिल्ली देश में नंबर वन, आज सडक पर उतारी 400 नई बसें

Versus 's Gupta Communication Defendant

M/s Gupta mmunication, H. No. 83.

uth Extn Part-I, New Delhi 10049.

Siddarth Gupta oprietor), H. No. 83, South tn Part-I, New Delhi 0049.

Sushma Gupta, uarantor), Plot No. 44.1 ock-F, Kalkaji, New Delhi 10049.

hereas you are entionally evading service summons it is hereby tified that if you shall not fend the case on the 09th y of October, 2023 the y fixed for the final

termined ex-pane. ven under my hand and the of the Court, this 19th day August, 2023.

posal, it will be heard and

Sd/-Addl. District Judge-06, South East District, Saket urt Complex, New Delhi.

roclamation Requiring ttendence of Defendant Order 5, Rule 20 of the ode of Civil Procedure)

In The Count of

.....Plaintiff | Complex, Delhi-110085.

तिथि: 06.09.2023

स्थानः नई दिल्ली

Chamber No. 903 Robini Court, Delhi-110085.

विन्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड

CIN: L72100DL1991PLC045276 पंजीकृत कार्यालयः डी-88, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई

. दिल्ली-110020 फोन: 011-44126457, फैक्स: 011-44126457 ई-मेलः vintroninformatics.01@gmail.com वेबसाइटः www.vintroninformatic.com

32वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम के आयोजन की सुबना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन कें लिए कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात् डी-८८, ओखला इंडरिट्रयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में आयोजितं की जाएगी । यह कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनियय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताए एव प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियम') के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनाक 8 अप्रैल, 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, न 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, न 02/2021 दिनांक भ3 जनवरी, 2021, में 21/2021 हिनाका 14 दिसंबर, 2021, न 2/2022 दिनाक 5 मई 2022 और न 10/2022 दिनाक 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय कोई द्वारा जारी किए गए भारतीय प्रतिभृति एव विनिमय बोर्ड परिपत्र स. सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी1/ 012/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएनडी2/सीआईएफटी/ पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2022/62 वि ा । । व अर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023 /४ दिनांक ५ ानवरी, 2023 ("सेबी, परिपत्र") के अनुपालन में है जिसमें कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रो एवं सेवी परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सुचना के साथ विलीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन सभी सदस्यों और इसके हकदार अन्य व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ठ्रांसफर एजेंट ("रजिस्ट्रार/आरटीए")/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पजीकृत है। सदरयगण कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ ही कंपनी की एजीएम में अपनी भौतिक उपरिधात के माध्यम से एजीएम में भाग एवं शामिल हो सकते हैं। एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। रिमाट ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतू की जाएगी। जिन सदस्यों से अपना ई-मेले पता एवं मोबाइल नम्बर सहित पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के साथ ही ई-वोटिंग और रिमोट ई-वीटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के मामले में अपने डीपी से संपर्क करें और भौतिक प्रारूप के मामले में कंपनी के आरटीए को ई-मेल admin@skylinerta.com पर लिखित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराए। डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप / भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

कृते विन्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड हस्ता./-

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पाम इटेबल्स लि.

(Commercial Court)-06, Court No. 23, Block-1, South-East District, Saket Court Complex, New Delhi. CS (Comm)/387/2020

Ma. Mija Dilaud, Lu. Dej

State Bank of India

.....Plaintiff

Pankaj Kumar

.....Defendant

Pankaj Kumar S/o Sh. Sunder Dayal Saxena, H. No. 128-A/III Floor, Near DDA

Flats. Shahpur Jat, New Delhi-110019 Also At : Institute of Home

Economics, F-4, Hauz Klias Enclave, New Delhi-110016 Mob: 9654568135.

Whereas You intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 17.10.2023 the day fixed for the final disposal, it will be

parte. Given under my hand and the seal of the court, this 09.08.2023.

heard and determined ex-

Seal

Ld. DJ (Commercial) Court)-06, South-East District, Saket Court Complex, New Delhi.

Sd/-